

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41]

दिल्ली, बुधवार, मार्च 9, 2016/फाल्गुन 19, 1937

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 224

No. 41]

DELHI, WEDNESDAY, MARCH 9, 2016/PHALGUNA 19, 1937

[N.C.T.D. No. 224

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (सामान्य) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 मार्च, 2016

सं. फा. 18/499/2015/गृह(सा.)/1461.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या यू-11011/2/74-यू टी एल (i) के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, सब डिविजन मजिस्ट्रेट (चुनाव) तथा सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सब डिविजन मजिस्ट्रेट (चुनाव) तथा सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) के पद पर बने रहने तक या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, सब डिविजन मजिस्ट्रेट (चुनाव) तथा सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करते हुए कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

ए. के. गुप्ता, उप सचिव (गृह)

HOME (GENERAL) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 9th March, 2016

No. F. 18/499/2015/HOME(G)/1461.—In exercise of the powers conferred by section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. U-11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Hon'ble Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint and confer powers of Executive Magistrate upon the

SDMs (Election) and Assistant Electoral Registration Officer (AEROs), with effect from the date of assumption of charge till they hold the post of SDMs (Election) and Assistant Electoral Registration Officer (AEROs) in the Election Department or till further orders, whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

A. K. GUPTA, Dy. Secy. (HOME)

गृह पुलिस-II (विभाग)

(कार्यालय उपायुक्त पुलिस: यातायात: यातायात अभियांत्रिकी: दिल्ली)

(दिल्ली यातायात पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली)

अधिसूचना

दिल्ली, 9 मार्च, 2016

सं. फा. 20/4/2003/ग.पु.-II/1604.—जबकि, रानी बाग रोड पर यातायात की सघनता के कारण यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है और इससे अन्य सड़क प्रयोगकर्ताओं को असुविधा उत्पन्न हो रही है;

और जबकि, यातायात के सुगम प्रवाह को सुनिश्चित करने और वाहन चालकों एवं अन्य सड़क प्रयोगकर्ताओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए रानी बाग रोड पर यातायात के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए यह करना आवश्यक है;

अतः मैं, मनोज सी., उपायुक्त पुलिस, यातायात (यातायात अभियांत्रिकी) दिल्ली, दिल्ली में सड़कों व गलियों पर वाहन व अन्य यातायात नियम, 1980 की धारा 21 जिसके अन्तर्गत मुझे अधिकार प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए एतद्वारा रानी बाग रोड पर महर्षि दयानन्द सरस्वती चौक से रोड संख्या 43 की तरफ जोकि शकुरबस्ती रेलवे स्टेशन की तरफ मिलता है, को अगले आदेश तक प्रतिदिन 24 घंटे एकतरफा मार्ग घोषित करता हूँ।

सामान्य जनता के सूचनार्थ इस आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा समस्त जिला पुलिस उपायुक्तों व थानों दिल्ली/नई दिल्ली के सूचना पट्टों पर इसकी एक प्रति चिपकाई जाएगी।

संबंधित अधिकरण एवम् सड़क रख-रखाव प्राधिकरण जन साधारण की सूचनार्थ एवम् सुविधा हेतु आवश्यक संकेत पट्ट पर प्रतिबंधित संकेत को इंगित करते हुए लगाएंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनांक 09-03-2016 को जारी किया गया।

मनोज सी., उपायुक्त पुलिस

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

(OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE: TRAFFIC: TE)

(DELHI TRAFFIC POLICE HDQRS, NEW DELHI)

NOTIFICATION

Delhi, the 9th March, 2016

F. No. 20/4/2003/HP-II/1604.—Whereas, on Rani Bagh Road heavy flow of traffic is causing obstruction in smooth flow of traffic and inconvenience to other road users;

And whereas, it is necessary to regulate the movement of traffic on Rani Bagh Road to ensure smooth flow of traffic and for convenience and safety of motorists and other road users;

Now, therefore, I, Manoj C., Deputy Commissioner of Police/Traffic (TE), Delhi in exercise of the powers, conferred upon me under Regulation 21 of the Delhi Control of Vehicular and Other Traffic on Roads and Street Regulations, 1980 do hereby declare the stretch from Maharishi Dayanand Saraswati Chowk towards Road No. 43, connecting Shakur Basti Railway Station 'One Way' for all type of vehicles for 24 hours of everyday, till further orders.

This order shall be published for the information of the general public in the Official Gazette and by affixing a copy on the notice boards of the office of all District Deputy Commissioner of Police and all Police Stations in Delhi/New Delhi.

The concerned civic road agencies maintaining the roads/areas shall erect the corresponding informatory signboards indicating the restrictions in the area for the guidance and convenience of all concerned.

This order shall come into force with immediate effect.

Given under my hand and seal of this office on 09-03-2016.

MANOJ C., Dy. Commissioner of Police